


## राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश- Eastern Plains of Rajasthan



- यह प्रदेश टेथिस सागर का भाग है |
- यह प्रदेश - अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तोड़गढ़, आदि जिलों में फैला हुआ है |
- यह राज्य के 23% भाग पर फैला है |
- इसमें राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है |
- इस प्रदेश में 60cm से 80cm तक वर्षा होती है |
- इस प्रदेश की मिट्टी दोमट / जलोढ़ / काँप है |
- इस प्रदेश का निर्माण नदियों ध्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है |
- यह प्रदेश राज्य का सबसे उपजाऊ भाग है |
- इस प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है।

**इस प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है -**

बाणगंगा का मैदान (2) बनास का मैदान (3) चम्बल का मैदान (4) माही का मैदान

**बाणगंगा का मैदान** - यह मैदान भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है | यह गंगा, यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है | इसका ढाल पूर्व की ओर है जिसके कारण इस भाग की नदियों का पानी यमुना, गंगा नदी में मिल जाता है इस कारण से इस इस भाग को

बाणगंगा का मैदान कहते हैं क्योंकि बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों का जल यमुना में मिलता है ।

**बनास का मैदान** - बनास नदी खमनौर की पहाड़ियाँ ( राजसमंद ) से चित्तौगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, व सवाई माधोपुर से होती हुई चम्बल नदी में मिल जाती है । नदी के इस पूरे भाग को बनास का मैदान कहा जाता है ।

**चम्बल बेसिन** - चम्बल नदी ( मध्य प्रदेश ) जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में ( चोरासीगढ़ ) चित्तौगढ़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई ( यमुना उत्तर ) में मिल जाती है । चम्बल के इस भाग को चम्बल बेसिन के नाम से जाना जाता है ।

**माही का मैदान** - यह नदी अमरौरु की पहाड़ियाँ ( मध्य प्रदेश ) से निकलकर खांद ( बांसवाड़ा ) में प्रवेश कर प्रतापगढ़ व इंगरपुर में बहकर वापस गुजरात राज्य में जाकर खम्बात की खाड़ी अरबसागर में मिल जाती है । इस कारण से इस मैदानी भाग को माही का मैदान कहा जाता है ।



**SMC Education**

 Mock Test [www.smceducation.in](http://www.smceducation.in)

 GK PDF [gk.smceducation.in](http://gk.smceducation.in)

 Govt Jobs [www.ResultUniraj.co.in](http://www.ResultUniraj.co.in)

 YouTube **SMC Education**